

नकली देशी शराब की 21 पेटी बरामद

Publish Date: Thu, 05 Mar 2020 06:01 AM (IST)



होली त्योहार के मद्देनजर आबकारी विभाग ने छापामार अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने धामपुर स्योहारा अफजलगढ़ आदि स्थानों में छापेमारी की। विभाग की टीम ने स्योहारा के बुढ़नपुर में एक

- होली के मद्देनजर आबकारी विभाग की छापेमारी

संवाद सहयोगी, धामपुर: होली त्योहार के मद्देनजर आबकारी विभाग ने छापामार अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने धामपुर, स्योहारा, अफजलगढ़ आदि स्थानों में छापेमारी की। विभाग की टीम ने स्योहारा के बुढ़नपुर में एक कार को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कार से 21 पेटी नकली देशी शराब बरामद हुई है। कार में सवार लोग कार छोड़कर फरार हो गए।

होली का त्योहार नजदीक है, इससे पहले क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जोर पकड़ लेता है। इसके चलते माफिया द्वारा अवैध रूप से भी शराब की बिक्री होती है। साथ ही नकली शराब का कारोबार जोरों से चलता है। इसके चलते विभागीय स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है। बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने स्योहारा के बुढ़नपुर स्थित नहर के पुल से शक के आधार पर एक कार को रोका। टीम की भनक लगते ही कार में सवार एक व्यक्ति कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान टीम ने कार से 21 पेटी नकली देशी शराब बरामद की। साथ ही कार को भी कब्जे में ले लिया है। वहीं फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। इसकी पुष्टि करते हुए आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि यह अभियान 10 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में सभी स्थानों पर छापेमारी की जारी रहेगी। टीम में आबकारी निरीक्षक के अलावा एसआई रफल सिंह सैनी, सुरेन्द्र सिंह, पंकज आदि शामिल रहे।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bijnor-21-colic-fake-alcohol-recovered-20086219.html>